



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

साइरिक प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

**भाद्र 27, बुधवार, शाके 1941–सितम्बर 18, 2019
Bhadra 27, Wednesday, Saka 1941–September 18, 2019**

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT**ORDER****Jaipur, September 6, 2019**

F.10 (Elec) LSG/19/8916 :-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Council Pratapgarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Pratapgarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government

कार्यालय नगर परिषद् प्रतापगढ़ (राज.)

प्रारूप – क

क्र.स.	वार्ड नम्बर	विवरण
1	1	चित्तौड़ रोड पर तुलसी रिसोर्ट को शामिल करते हुए होटल आंनद तक यहां से पुलिया तक की आबादी शामिल करते हुए पूर्वी ओर चलते हुए आनंद होटल के पीछे स्थित कांलोनियों को शामिल करते हुए अभिनंदन नगर, शिवाजी नगर की आबादियां शामिल करते हुए दक्षिणी ओर चलते हुए सीधे चित्तौड़ रोड तक एवं यहां से वापस तुलसी रिसोर्ट तक का क्षेत्र शामिल है।
2	2	चित्तौड़ रोड पर बगवास से पहले पुलिया से चित्तौड़ रोड पर चलते हुए घाटी के उपर से पश्चिमी ओर हिंगोरिया रोड पर चलते हुए एवं यहां से बगवास तालाब के पास होते हुए खेतों की बस्तियां शामिल करते हुए चित्तौड़ रोड पर बगवास की राजस्व सीमा तक एवं यहां से पूर्वी ओर राजस्व सीमा चलते-चलते अंजनी विहार, ट्रेक्टर शौ-रुम एवं खेतों पर बसी आबादियां तथा पुराने बगवास गांव की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए वापस चित्तौड़ रोड स्थित पुलिया तक का क्षेत्र सम्मिलित है।

3	3	चित्तौड़ रोड पर स्थित प्रतापगढ़ इण्डस्ट्रीज से बगवास की ओर चलते हुए बायी साईंड की आबादी शामिल करते हुए बगवास घाटी पर हिंगोरिया रोड की ओर चलते हुए ग्वाल तलाई की आबादी तथा बगवास की राजस्व सीमा चलते-चलते खेतों पर बसी आबादियां शामिल करते हुए पश्चिम ओर पुलिस लाईन तक एवं हाट सालमगढ़ की राजस्व सीमा एवं यहां से हाट सालमगढ़ की राजस्व सीमा शामिल करते हुए धरियावद रोड तक एवं यहां से पूर्वी ओर प्रतापगढ़ शहर की ओर चलते हुए बायी ओर की आबादियां शामिल करते हुए वापस प्रतापगढ़ इण्डस्ट्रीज तक इसमें औद्योगिक क्षेत्र, बी.एड. कॉलेज, बगवास की नई आबादी, पुलिस लाईन, आईडीएसएमटी योजना, पीएचईडी कार्यालय के आस-पास स्थित बस्तियां एवं हुड़कों कांलोनी की आबादी क्षेत्र सम्मिलित हैं।
4	4	चित्तौड़ रोड पर अम्बेडकर चौराहा से धरियावद रोड की ओर चलते हुए बायी और की आबादी शामिल करते हुए हाट सालमगढ़ की राजस्व सीमा तक एवं यहां से दक्षिणी ओर चलते हुए खेतों पर बसी आबादियां शामिल करते हुए हाउसिंग बोर्ड के पिछे तक एवं हाउसिंग बोर्ड शामिल करते हुए पूर्वी ओर चलते हुए बायी साईंड की आबादियां शामिल करते हुए शनि महाराज मंदिर के पिछे स्थित हनुमान मंदिर तक एवं यहां से देवगढ़ दरवाजा की ओर चलते हुए एवं यहां से कृषि मंडी के कौने तक एवं यहां से आजाद सर्कल की ओर चलते हुए बायी साईंड की आबादी शामिल करते हुए आजाद चौक तक एवं यहां से वापस अम्बेडकर चौराहे तक का क्षेत्र सम्मिलित है इसमें वन विभाग, सौढानी जी की फेकट्री वाला क्षेत्र, गंगाबाई तेली कांलोनी, कलेक्ट्रेट एवं इसके आगे स्थित कांलानिया खेतों की आबादीया सम्पूर्ण हाउसिंग बोर्ड कांलोनी, शनि महाराज मंदिर एवं इसके पिछे स्थित आबादी कृषिमंडी क्षेत्र तथा गाडोलियो बस्ती सम्मिलित है।
5	5	आजाद चौराहे पर श्री रमेशजी तेली की दुकान से धमोत्तर दरवाजे की ओर चलते हुए दायी ओर की आबादी शामिल करते हुए धमोत्तर दरवाजा तक एवं यहां से पश्चिम की ओर शहर पनाह की दीवाल की ओर चलते हुए हरिजन बस्ती को शामिल करते हुए देवगढ़ दरवाजा तक एवं यहां से पश्चिम की ओर चलते हुए नंदमार्ग पर होते हुए प्रतापगढ़ की राजस्व सीमा तक एवं यहां से उत्तरी ओर राजस्व सीमा चलते-चलते गुप्तगंगा क्षेत्र शामिल करते हुए हाउसिंग बोर्ड के पीछे तक तथा यहां से पूर्वी ओर चलते हुए मुंशा शहिद की दरगाह शामिल करते हुए कपुर जी की छतरी क्षेत्र शामिल करते हुए अचलपुर लेम्प तक एवं यहां से देवगढ़ दरवाजा रोड चलते हुए चोकन्ना बालाजी मंदिर तक एवं यहां से आजाद सर्कल की ओर चलते हुए दायी ओर की आबादियां शामिल करते हुए वापस श्री रमेश जी तेली की दुकान तक इसमें गब्बाजी का बाड़े की आबादी, धमोत्तर दरवाजा बाहर स्थित हरिजन बस्ती, देवगढ़ दरवाजा बाहर स्थित आबादी एवं राजस्थान रोडवेज बस स्टेण्ड क्षेत्र के आस-पास की बसी आबादी एवं खेतों की आबादी आदि सम्मिलित है।

6	6	देवगढ़ दरवाजा के अन्दर से रुस्तम जी की गली होते हुए तलाई मोहल्ले की मुख्य सड़क चलते हुए दाहिनी ओर की आबादी शामिल करते हुए इमाम बाड़े के सामने हेण्डपम्प वाली गली तक एवं यहां से श्री खाजु जी का मकान शामिल करते हुए गली में तथा यहां से बायी ओर गली-गली चलते हुए दरगाह तक एवं यहां से दाहिनी ओर गली में चलते हुए दाहिनी ओर की आबादी शामिल करते हुए सीधे गली के अंत में शौचालय कॉम्प्लेक्स तक तथा नंदमार्ग को पार करते हुए सीधे पश्चिम दिशा में खेतों की आबादीयां शामिल करते हुए उत्तरी ओर राजस्व सीमा चलते-चलते वापस नंदमार्ग पंहुच कर शहर पनाह दीवाल के सहारे वापिस देवगढ़ दरवाजा तक के मध्य की आबादी शामिल है।
7	7	तलाई मोहल्ले की मुख्य सड़क पर स्थित इमाम बाड़े के सामने श्री मनोहर खटीक एवं बोहरा जी के मकान से पश्चिम ओर चलते हुए श्री दिनेश गुर्जर के मकान तक एवं यहां से बायी ओर गली में चलते हुए दरगाह तक एवं यहां से पश्चिमी ओर गली-गली चलते हुए बायी तरफ की आबादी शामिल करते हुए नंदमार्ग को पार करते हुए राजस्व सीमा तक एवं यहां से दक्षिणी ओर सीमा-सीमा चलते हुए वापस पूर्वी ओर गुप्तेश्वर महादेव क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए किला परिसर की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए मुख्य गेट तक एवं यहां से पुराने हॉस्पिटल क्षेत्र को शामिल करते हुए खेरादी वाडा चौक तक तथा यहां से बायी ओर तलाई मोहल्ला की मुख्य सड़क पर चलते हुए बायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए वापस इमाम बाड़े के सामने श्री मनोहर खटीक एवं बोहरा जी के मकान तक की आबादी क्षेत्र शामिल है।
8	8	धाई दरवाजे बाहर तालाब रोड पर चलते हुए मदार चिल्ला एवं गौशाला को शामिल करते हुए विश्राम घाट तक एवं यहां से रामद्वारा समाधी स्थल क्षेत्र को शामिल करते हुए सड़क-सड़क चलते हुए दादावाड़ी के पीछे वाली बाउण्डी तक एवं यहां से श्री माली का खेत शामिल करते हुए बांसवाड़ा रोड तक ओर यहां से बांसवाड़ा रोड की ओर चलते हुए प्रतापगढ़ की राजस्व सीमा चलते हुए गोपालपुरा की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए मुक्तिधाम की ओर चलते हुए दिपेश्वर महादेव क्षेत्र शामिल करते हुए किला परिसर को छोड़ते हुए शहर पनाह दीवाल के सहारे चलते हुए वापस धाई दरवाजा तक इसमें तालाबखेड़ा बस्ती, गोपालपुरा बस्ती जनता कांलोनी एवं धीयाजी बाग क्षेत्र आदि शामिल हैं।

9	9	धाई दरवाजा बाहर से तालाब रोड चलते हुए इन्दिरा कांलोनी शामिल करते हुए विश्राम घाट तक एवं यहां से दशहरा ग्राउण्ड को शामिल करते हुए बांसवाड़ा रोड तक एवं यहां से प्रतापगढ़ शहर की ओर चलते हुए कॉलेज तक एवं यहां से जवाहर नगर मुख्य सड़क पर चलते हुए बायी ओर की आबादी शामिल करते हुए बारी दरवाजा तक एवं यहां से शहर पनाह दिवाल के सहारे चलते हुए वापस धाई दरवाजा तक, इसमें इन्दिरा कांलोनी की सम्पूर्ण बस्ती, जी.एस.एस.क्षेत्र की आबादी, आई.टी.आई., सक्रिट हाउस, महाविद्यालय, चम्पनाथ महादेव, रामधाट, नृसिंहघाट एवं ईदगाह क्षेत्र सम्मिलित हैं।
10	10	श्री मांगुदास की होटल से सीएमएचओ कार्यालय होते हुए बालिका विद्यालय से कस्बा चौकी तक दक्षिणी लाईन झंडागली की पश्चिमी लाईन होते हुए, धनपाल सेठ की दुकान तक, धाई दरवाजा, धीयाजी का बाग तक पश्चिमी लाईन, गांछा गली दोनों लाईन, लालबाग तक श्री नारायण, दुर्गाशंकर पानवाले से धाई दरवाजा की पूर्वी लाईन स्कुल नं. 03 की गली एक लाईन, मोडीमाता मंदिर तक।
11	11	रुस्तम की गली के नुक्कड़ से लुणी शंकर के मकान से होते हुए तलाई मोहल्ले की पूर्वी लाईन, खेरादी मोहल्ला तक पूर्वी लाईन के नुक्कड़ तक, कुम्हारवाड़ा गली व कुंचा दोनों लाईन मय गांछा व मुसलमानों की बस्ती कानाभाई चाट वाले का मकान, निचला बाजार की नुक्कड़ से उतरी लाईन तेली गली से पश्चिमी लाईन महाराज साहब अमर सिंह जी के मकान तक।
12	12	तेली गली की पूर्वी लाईन से खेमचंद सिंधी के मकान व कलार वाली गली के नुक्कड़ तक व लुणीशंकर के मकान के सामने वाला कुंचा मय जुआजी की हवेली के नुक्कड़ तक, कलार वाली गली दोनों लाईन, निचला बाजार, खीमचंद सिंधी के मकान के बाहर गली के नुक्कड़ तक उतरी लाईन व लोहारगली नुक्कड़ से पश्चिमी लाईन जुम्मा मस्जिद से राज स्कुल होते हुए पुलिस चौकी के सामने सांवरिया होटल होते हुए तेली गली तक नुक्कड़ तक का कुंचा।
13	13	देवगढ़ दरवाजे के नुक्कड़ लालुराम के मकान से पूर्वी लाईन भड़भुंजा के मकान तक, भड़भुंजा के मकान से गोपालगंज उतरी लाईन, रामद्वारा वाले की गली के नुक्कड़ तक मय चंदा प्रभुजी मंदिर के पास वाली के कुंचे तक, रामद्वारा गली के नुक्कड़ से बापूगली नुक्कड़ तक पश्चिमी लाईन, बापूगली की दोनों लाईन की, देवगढ़ दरवाजा से धमोतर दरवाजा के नुक्कड़ तक, मय कुंचो की बस्ती धमोतर दरवाजा के पूर्वी नुक्कड़, अमीर मोहम्मद के मकान से वरदीचंद पालीवाल के मकान तक, हलवाईयों की गली की पूर्वी लाईन मय मठवाली गली कुंचा दोनों लाईन, गोदावत का कुचों दोनों लाईन व वरदीचंद के मकान से उस्तादजी की बावड़ी की मस्जिद तक उतरी लाईन।

14	14	लोहारगली की पूर्वी लाईन पन्नालाल दर्जी के मकान से सदरबाजार में लोहारगली के नुक्कड़ तक मय मन्नालाल दोशी की गली दोनों लाईन एवम् बण्डीजी का कुंचा दोनों लाईन, सदरबाजार लोहारगली के नुक्कड़ से उतरी लाईन कामदार साहब की गली के नुक्कड़ तक, जुना मंदिर की गली की दोनों लाईन, जारोली गली की दोनों लाईन, ब्राम्हणों के पोल की बस्ती, बण्डी के सामने का कुंचा दोनों लाईन, कसारागली के पास मलासा वाले की पोल के पीछे वाली गली दोनों लाईन, टकसाल गली की दोनों लाईन मय सुथारों के कुंचे, टकसाल गली के पास की बोहरा की बस्ती की दोनों लाईन, शाहजी कामदार साहब की गली दोनों लाईन, टकसाल गली के नुक्कड़ से लोहारगली के नुक्कड़ तक, गोपालगंज दक्षिणी लाईन तक।
15	15	सदरबाजार सुलेमान बोहरा की दुकान से लच्छुमामा की होटल तक झण्डागली की पूर्वी लाईन होते हूए विजय सोनी के मकान तक, सालमपुरा की उतरी लाईन चलते हुए चाँदमल सालगिया के मकान होते हुए सरिया के मकान मय कुंचा, साढाबारा मंदिर गली दोनों लाईन, खासगीगली दोनों लाईन, परदेशी गली मोहल्ला दोनों लाईन, कोडिया गली दोनों लाईन, भोजका की गली के पास उन्दरों की पोल व हवालदार की पोल होते हूए सैफी मोहल्ला की तरफ उन्दरा गली से सालमपुरा के नुक्कड़ तक बोहरा बस्ती सैफी मोहल्ला दोनों लाईन होते हुए कबूतर खाना तक समाप्त ।
16	16	सालमपुरा कबूतरखाना शांतिलालजी दोशी (गोपी) के मकान से सालमपुरा उतरी लाईन बाईजी की मस्जिद के कुंचे को लेते हूए उन्दरों की गली के नुक्कड़ तक, दीपचंद मोटी के मकान से शांतिलाल चिप्पड के मकान तक उतरी लाईन मोटी गली का कुंचा, मेहताजी की गली कुंचे की बस्ती से चांदमल चिप्पड के मकान से मोचीगली के नुक्कड़ से बोरदिया के मकान तक उतरी लाईन व सालमपुरा दक्षिणी लाईन बोहरे के मकान के नुक्कड़ से नरेन्द्र चिप्पड के मकान के नुक्कड़ तक मय तातेड़ की पोल होते हूए बारी दरवाजा से ओडा गली दोनों लाईन, कादर हाफीज के मकान से भागीरथ वैद्य के मकान तक, मुसलमान व कुंजड़ों की बस्ती का कुंचा, भागीरथ कम्पाउण्डर के मकान तक, सालमपुरा दक्षिणी लाईन मय मोरसली गली, सिलावटों की गली सहित घाटी मोहल्ला दक्षिणी लाईन, सुखलाल दर्जी के मकान से रामविलास सोनी के मकान तक।
17	17	राम मार्केट के पीछे नजरबाग गली दोनों लाईन मोचीयों की गली के नुक्कड़ तक मय कुंजड़ों की बस्ती एवम् कुंचा, सालमपुरा बोरदीया के मकान से मोची गली पश्चिमी लाईन मय सोनी एवम् धोबीयों का कुंचा, अब्दागिर गली सालमपुरा तक दोनों लाईन बोहरागली, मोटीपोल बोहरा मस्जिद परिसर जमातखाना गली, कुंजड़ा समाज मस्जिद से खासगी गली तक दोनों लाईन।
18	18	सदरबाजार माणकचौक कामदार साहब की गली के नुक्कड़ से उतरी लाईन मय पालीवाल गली दोनों लाईन, नागरडेरा, दर्जीयों की पोल, कबाड़ी मोहल्ला

		दोनो लाईन मय मुक्कट मार्केट माहेश्वरी का कुंचा व आमचाप वाले के पुराने मकान की गली दोनो लाईन, पालीवाल मंदिर के पीछे वाला कुंचा मय रामद्वारा गली दोनो लाईन, गाड़ी खाना मोहल्ला दोनो लाईन मय जुवा की पोल की बस्ती व गाड़ीखाने के कुंचे की बस्ती, गोपालगंज की बस्ती, गोपालगंज दक्षिणी लाईन गाड़ीखाना के नुक्कड से टकसाल गली के नुक्कड तक।
19	19	धानमंडी नंदवानो की गली के नुक्कड से श्री जगदीश भाया के मकान तक एवं सुथारों का कुंचा शामिल करते हूए नंदवाणो की गली दोनो लाईन, गोपालगंज के नुक्कड तक, पारखो की गली दोनो लाईन, भारयश्री रिसोर्ट कुंचे सहित गोपालगंज नुक्कड तक, गोपालगंज आर्यसमाज के सामने मिश्रीलाल मोगरा के मकान से गाड़ीखाना के नुक्कड तक मय ओकार सिंह रेंजर वाला कुंचा दोनो लाईन क्षैत्र शामिल है।
20	20	सालमपुरा मे अजीतकुमार तातेड के मकान से मोचीगली पूर्वी लाईन मय गबूरजी की गली माहेश्वरी पोल, धानमंडी नुक्कड से ऋषभदेव गली से मय पूर्वी पश्चिमी लाईन मेहताजी के मकान तक अमृतलालजी पायक के मकान से चण्डालिया गली शांतिलालजी मोटी के मकान से श्री सेवन्तिलालजी चण्डालिया के मकान तक एवं यहां से मांगीलालजी वेदराज के मकान से, भाटपुरा गली पश्चिमी लाईन संतोष पान वाले के मकान तक, संतोष पान वाले के मकान से बाबुलालजी बोरदिया के मकान तक सालमपुरा उतरी लाईन मय फुटी पोल कुंचा शांतिलाल जी नगरी वाले के मकान सदरबाजार दक्षिणी लाईन से ऋषभदेव गली नुक्कड तक। मोहनलाल दुवाचंद की दुकान से नीव वाली गली धानमंडी दक्षिणी लाईन मय शाह वालो की पोल केशवरायजी के मंदिर तक।
21	21	श्री टीकम महाराज के मकान के पीछे श्री भैरुलाल प्रजापत के मकान से श्री अशोककुमार ब्राह्मण के मकान होते हूए श्री शोभागमल पूनमचंद दोशी के मकान तक एवं यहां से अम्बालालजी शांतिलालजी के मकान शामिल करते हूए मय कुंचा आबादी को शामिल करते हूए धोबीचौक को शामिल करते हुए रूपलाल कोठारी के मकान होते हूए कोतवाल साहब की गली चलते हूए दांयी ओर की आबादी शामिल करते हूए सालमपुरा रोड तक एवं यहां से भाटपुरा की ओर चलते हूए दोनो ओर की आबादी को शामिल करते हूए रहीमुल्ला की गली के नुक्कड तक एवं रहीमुल्ला की गली चलते हूए दांयी ओर की आबादी शामिल करते हूए कुम्हारवाडा रोड तक एवं यहां से वापस टीकमचंद के मकान तक की आबादी क्षैत्र शामिल है।
22	22	सालमपुरा रोड पर रहीमुल्ला गली के बांयी ओर के मकान को शामिल करते हूए भाटपुरा की ओर चलते हूए दोनो ओर के मकान शामिल करते हूए भाटपुरा के पूर्वी नुक्कड तक शहरपनाह के अन्दर दक्षिणी लाईन मदन महाराज का मकान व मंदिर के नुक्कड से होते हूए बारी दरवाजा वाली गली दोनो लाईन मदरसा तक तथा रहीमुल्ला गली चलते हूए बांयी ओर की आबादी शामिल

		करते हूए कुम्हारवाडा सड़क तक एवं यहां से बांयी ओर की आबादी शामिल करते हूए भाटपुरा दरवाजा नुक्कड़ तक का क्षेत्र सम्मिलित है।
23	23	पंडितजी की बावड़ी पर हसनभाई सब्जीफरोश के मकान से कोतवाल साहब की गली में चलते हूए दांयी ओर की आबादी शामिल करते हूए गाढ़ी माता मंदिर होते हूए धोबीयों के पंचायती नोहरे तक कामलियों की गली दोनों लाईन, पीपलीगली दोनों लाईन, सदरबाजार नुक्कड़ तक, शांतिलाल भंडारी के मकान से सदरबाजार के दक्षिणी लाईन होते हूए संत वाली गली का कुंचा रतन तेली के मकान तक, सुरजपोल दरवाजे के अंदर होटल ऋतुराज से पंडितजी की बावड़ी रोड चलते हूए बोहरा बिल्डिंग होते हूए पंडितजी की बावड़ी मस्जिद एवं इसके आगे के मकान शामिल करते हूए वापस हसनभाई सब्जीफरोश के मकान तक की आबादी इसमें शामिल है।
24	24	श्री हरिशंकर शर्मा के मकान से श्री किशन पान वाले तक एवं यहां से पारस रेडियो की दुकान तक व सामने की लाईन में नया दरवाजा से जैन साईकिल होते हुए पुराना दरवाजा भारत भोजनालय वाला पिछवाड़े को शामिल करते हूए नये दरवाजे तक चमारो की गली दोनों लाईन, कचरमल पोरवाल की गली की दोनों लाईन, मेहताजी की गली दोनों लाईन न्यारगरो का चौक मय कुंचा दोनों लाईन एवं पाबूजी का मठ सम्मिलित करते हुए झमकलाल जाट के मकान तक, जीतमल साईकिल वाले के मकान से होते हूए भावगढ़ वालों की धर्मशाला को लेते हुए न्यारगरो के चौक नुक्कड़ तक, झमकलाल जयराम जाट के मकान से बसाड वाले राव के मकान तक मय कुंचे के मोगराजी वकील के मकान के पास वाली गली दोनों लाईन पारखो की गली के नुक्कड़ तक, उस्तादजी की बावड़ी, गोतमलाल ब्राह्मण के मकान से रामगेट सुरजपोल तक, गोपालगंज उतरी लाईन मय आंनद कम्पाउन्डर वाला कुंचा, आर्य समाज मंदिर से लगती हुई मुंशीजी की गली मय दोनों लाईन एवम् आर्य समाज मंदिर के पीछे वाली बस्ती तक, सुरजपोल दरवाजा से पश्चिमी लाईन, बलदेव आर्य व वरदीचंद सुथर के मकान को लेते हुए अर्चनाटांकिज तक का कुंचा व उस्तादजी की बावड़ी का कुंचा, मारूती मार्केट की बस्ती मोहन दूध वाले का कुंचा।
25	25	बारी दरवाजे के बाहर मैन रोड भाटपुरा दरवाजे के बाहर तक होते हूए बाहर की आबादी शामिल करते हूए भाटपुरा बाहर मालियों का कुआं गोतमनगर, जवाहर नगर की सम्पूर्ण बस्ती, कुरेशखां पठान के मकान तक एवं यहां से कन्या छात्रावास, निराश्रित बालगृह, खादी ग्राम उद्याग भण्डार, चम्बल परियोजना, कृषिविभाग होते हूए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पावर हांउस होते हूए नाले के पास कुम्हारो की बस्ती, भाटपुरा दरवाजा बाहर रामनिवास सोनी के मकान से काका साहब दरगाह की सम्पूर्ण बस्ती तथा पालीवाल पेट्रोल पंप एवं समता टांकिज होते हूए सुरजपोल गेट तक एवं यहां से शहरपनाह दिवाल के सहारे-सहारे होते हूए बारी दरवाजा तक का क्षेत्र शामिल है।

26	26	जीरो माईल चौराहे से रतलाम रोड चलते हूए दांयी ओर की आबादी शामिल करते हूए नाकोडा नगर, आदिनाथ, भैरवनाथ कांलोनिया शामिल करते हूए प्रतापगढ़ राजस्व सीमा तक एवं यहां से पश्चिमी ओर सीमा-सीमा चलते हूए बांसवाडा रोड तक एवं यहां से जीरो माईल चौराहे की ओर चलते हूए दांयी ओर की आबादीयां जिला चिकित्सालय भवन शामिल करते हूए रिलायंस पेट्रोलपंप शामिल करते हूए वापस जीरो माईल चौराहे तक इसमें तिरुपति नगर, राजेन्द्र नगर, मजिस्ट्रेट क्वार्टर, हास्पीटल का आवासीय क्षेत्र दरबार साहब की कोठी एवं श्री मन्नालाल नरसिंगपुरा का मकान तक का क्षेत्र शामिल है।
27	27	जीरो माईल चौराहे से मंदसौर रोड चलते हूए दांयी ओर की आबादी शामिल करते हूए सुंदर सूरज नगर तक की आबादी यहां से दरबार साहब के बंगले को छोड़ते हूए सीधे मानपुरा रोड तक एवं यहां से मानपुरा की सम्पूर्ण आबादी छोड़ते हूए शांतिलाल मंडलोई के खेत होते हूए प्रतापगढ़ राजस्व सीमा तक एवं यहां से पश्चिमी ओर रतलाम रोड तक एवं यहां से जीरो माईल की ओर चलते हूए दांयी ओर की आबादीयां शामिल करते हूए वापस जीरो माईल तक इसमें पंचायती समिति, पुराना डाकबंगला, सरकारी क्वार्टर, कोर्ट परिसर, पीडब्ल्यूडी, सिचांई विभाग, प्रीतमनगर, कथागरा की बस्ती, न्यु नाकोडानगर एरिया, आदर्श नगर, सिविल लाईन एरिया, सिविल लाईन एवं वन विभाग आदि क्षेत्र शामिल हैं।
28	28	मानपुरा रोड पर दरबार साहब के महल के कोने से दक्षिणी ओर मानपुरा की राजस्व सीमा तक एवं यहां से पश्चिमी ओर राजस्व सीमा-सीमा चलते हूए झांसडी रोड तक एवं यहां से उतरी ओर राजस्व सीमा चलते-चलते मानपुरा की सम्पूर्ण बस्ती शामिल करते हूए मुख्यरोड होते हूए वापस दरबार साहब के बंगले के कोने तक का सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल है।
29	29	जीरो माईल चौराहे से मंदसौर रोड पर चलते हूए बांयी ओर का क्षेत्र शामिल करते हूए दरबार साहब के बंगले के कोने तक एवं यहां से बंगले को शामिल करते हूए, बंगले के पीछे राजस्व सीमा तक एवं यहां से पूर्वी ओर मंदसौर रोड को पार कर सीमा-सीमा चलते हूए वापस जीरो माईल चौराहे तक इसमें दरबार साहब का बंगला क्षेत्र खेतों पर बसे मकानात, गांधीनगर, हनुमान नगर, नानेशनगर, चालीसा क्षेत्र की आबादी, जिला कारागृह क्षेत्र एवं पुलिस थाना क्षेत्र सम्मिलित हैं।।
30	30	एम.जी.मार्ग पर स्थित रावण की पुलिया के दाहिनी साईड के किनारे-किनारे चलते हूए केशव माधव नगर को शामिल करते हूए नाले-नाले राजस्व सीमा तक एवं वहां से पश्चिमी ओर सीमा-सीमा चलते हूए नानेश नगर एवं पुलिस थाना क्षेत्र को छोड़ते हूए मुख्य मंदसौर रोड तक एवं यहां से जीरो माईल चौराहे से एम.जी.मार्ग पर चलते हूए दाहिनी ओर की आबादी शामिल करते हूए पुनः रावण पुलिया तक इसमें बडाबाग सम्पूर्ण कांलोनी, केशव माधव नगर,

		एवं इनके दक्षिणी ओर बसी आबादी तथा कुओं पर बसी आबादी क्षेत्र सम्मिलित है।
31	31	रावण की पुलिया के बंयी साइड नाले के किनारे-किनारे चलते हूए एरियापति मंदिर शामिल करते हूए राजस्व सीमा तक एवं यहां से आबकारी रोड-रोड चलते हूए बांयी ओर की आबादी शामिल करते हूए नाका नं. 01 तक एवं यहां से एम.जी.मार्ग चलते हूए बांयी ओर की आबादी शामिल करते हूए पुनः रावण की पुलिया के बांयी ओर के किनारे तक इसमे रामकुण्ड क्षेत्र, जगदीश पेट्रोलपंप, सैफियह स्कुल क्षेत्र, जीर्णोंग फैक्ट्री क्षेत्र, एरियापति के पास स्थित कांलोनी, सांवरिया मंदिर कांलोनी, पुरानी आबकारी, एरियापति रोड दोनों लाइन, हीरा माली कांलोनी, परदेशी कांलोनी, क्रय-विक्रय समिति, भट्टारक स्कुल क्षेत्र, समाज कल्याण छात्रावास, सैफियह स्कुल क्षेत्र, भारतीय स्टेट बैंक एवं कुओं पर बसी आबादी क्षेत्र सम्मिलित है।
32	32	अहीर मोहल्ला स्थित स्वर्गीय श्री नाथुजी अहीर के मकान से श्री रिषी हरिजन के मकान तक एवम् यहां से श्री गिरिश के मकान को छोड़ते हुए बांयी ओर की आबादी शामिल करते हूए नगर परिषद के पिछे स्थित रोड पर चलते हूए श्री भटेवराजी के मकान तक एवं यहां से आबकारी रोड पर चलते हूए बांयी ओर की आबादी शामिल करते हूए नये आबकारी कार्यालय को शामिल करते हूए राजस्व सीमा तक एवं यहां से उतरी ओर सीमा-सीमा चलते हूए अंहिसा नगर की सम्पूर्ण बस्ती शामिल करते हूए जाटो के मकान शामिल करते हूए पुनः स्वर्गीय श्री नाथुजी अहीर के मकान तक की सम्पूर्ण आबादी एवं कुओं पर बसी आबादी शामिल है।
33	33	वाटरवर्क्स रोड पर श्री गोविन्दजी अहीर की दुकानों से श्री लक्ष्मण अहीर के मकान को शामिल करते हूए वाटरवर्क्स रोड-रोड चलते हूए दांहिनी ओर की आबादी शामिल करते हुए जलदाय विभाग, ग्वाला समाज की धर्मशाला शामिल करते हुए रोड-रोड राजस्व सीमा तक एवं यहां से दक्षिणी ओर सीमा-सीमा चलते हुए पश्चिमी ओर चलते हूए अंहिसा नगर को छोड़ते हुए सुटामा नगर एवं सागर कांलोनी शामिल करते हुए जाटो के मकानात छोड़ते हुए पुनः श्री लक्ष्मण अहीर के पिछे श्री गोविन्द जी अहीर के मकान तक की सम्पूर्ण आबादी शामिल है।
34	34	वाटरवर्क्स रोड पर श्री संजय ग्वाला के मकान से रोड-रोड चलते हूए बांयी ओर की आबादी शामिल करते हुए चनियाखेड़ी रोड पर राजस्व सीमा तक एवं यहां से उतरी ओर चलते हुए कुओं के मकानात शामिल करते हूए वेलोसिटी कांलोनी शामिल करते हुए पुनः श्री संजय ग्वाला के मकान तक इसमे प्रतापजी के भट्टे के पास की आबादी, अमन नगर एवं मेघदुत नगर एवं वेलोसिटी कांलोनी क्षेत्र, कुओं पर बसी आबादी क्षेत्र सम्मिलित है।
35	35	वाटरवर्क्स रोड पर श्री सतीश ग्वाला के मकान से सुरजपोल की ओर चलते हूए नगर परिषद के पीछे नवनिर्मित दुकानों तक एवं यहां से गली-गली चलते हूए

		हूए श्री गिरिश का मकान शामिल करते हूए एवं दांयी ओर की आबादी शामिल करते हूए नगर परिषद के पीछे वाली रोड-रोड चलते हूए आबकारी रोड तक एवं यहां से सुरजपोल की ओर चलते हुए दांयी आबादी शामिल करते हूए पुलिस चौकी तक एवं यहां से वाटरवर्क्स रोड पर चलते हूए श्री भैरूलाल टांक के मकान को शामिल करते हूए गलजी कुआ रोड पर चलते हूए दांयी ओर की आबादी शामिल करते हुए गलजी कुआ के आस-पास की आबादी शामिल करते हुए वेलोसिटी कांलोनी को छोड़ते हुए तथा मंसुरीजी के मकान, प्लाट को शामिल करते हुए पुनः श्री सतीश गवाला के मकान तक इसमें श्री गुलाबजी भट्टे के आसपास की आबादी, जटीया गलियों की आबादी, सिकलीगरो की आबादी, नगर परिषद परिसर क्षेत्र सम्मिलित हैं।
36	36	हाईस्कुल रोड नीमच नाका चेचानी की दुकान से बस स्टेण्ड तक, बस स्टेण्ड से अर्घना टांकिज के सामने वाली लाईन बुंदी चितौड बैक वाली बिल्डिंग तक, नीमच नाके से गुलशन बिल्डिंग होते हुए होटल चिराग के पीछे की बस्ती, मारवाडी कॉम्प्लेक्स के पीछे मय कुंचो की बस्ती, रत्ना होटल, पुलिस चौकी के सामने नुक्कड तक, भैरूलाल टांक के मकान से गलजी कुआ मार्ग की पश्चिमी लाईन होते हुए चिमनकुमार सोमानी मार्ग होते हुए कमलसिंह छायाकार के फार्महाउस के नुक्कड से नीमच नाका की दक्षिणी लाईन मय कुंचा मालवा कांलोनी, महावीर कांलोनी, दर्पण टांकिज के आस-पास बसी हुई बस्तियां।
37	37	चन्द्रशेखर आजार चौराहे पर पोस्ट ऑफिस से धमोतर दरवाजे की ओर सड़क-सड़क चलते हुए बांयी ओर की आबादी शामिल करते हुए धमोतर दरवाजे तक एवं यहां से पूर्वी ओर शहर पनाह के बाहर की बस्ती लेते हुए अर्घना टांकिज के पास कांठल समिति की बस्ती लेते हुए पुराने मारुती नगर की बस्ती लेते हुए अब्बासभाई मिल वालों का मकान शामिल करते हुए एवं यहां से श्री अम्बालाल शर्मा के मकान को शामिल करते हुए मुख्य चितौड रोड के पास स्थित तडवेचा जी के मकान तक एवं यहां मुख्य चितौड रोड चलते हुए बांयी ओर आबादी को शामिल करते हुए टैगोर पार्क से आगे केरोसीन वाले बोहरा जी के मकान तक एवं यहां से नई आबादी की सीधी सड़क चलते हुए बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए प्राईमरी स्कुल के पास जैन मंदिर एवं यहां से समता चौक एवं समता मार्ग पर चलते हुए बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए वापस पोस्ट ऑफिस तक इसमें टैगोरपार्क के पीछे मकानात, भारतीय जीवन बीमा निगम के सामने दोनों लाईनों के मकानात समता भवन के पास एवं पिछे आबादी क्षेत्र एवं वकील सुनील मेहता के मकान वाली सम्पूर्ण लाईन शामिल है।

38	38	मुख्य चितौड़ रोड पर स्थित श्री विशाल एवं दिपेश पोरवाल के मकान से श्री मांगीलाल मालवीय के मकान को शामिल करते हुए नईआबादी की मुख्य सड़क चलते हुए दाहिनी ओर की आबादी शामिल करते हुए श्री भैरूलाल कम्पाउन्डर के मकान तक एवं यहां से समता चौक एवं समता मार्ग-मार्ग चलते हुए दाहिनी ओर की आबादी शामिल करते हुए आजाद सर्कल पर स्थित श्री बद्रीलाल राठौड़ के दुकान-मकान तक एवं यहां से अम्बेडकर चौराहे की ओर सड़क-सड़क चलते हुए दाहिनी ओर की आबादी शामिल करते हुए अम्बेडकर चौराहे तक एवं यहां से टैगोरपार्क की ओर चलते हुए वापस श्री मांगीलाल मालवीय के मकान तक इसमे बाला साहब मंदिर के पास नगर परिषद का मार्केट गैस ऐजेन्सी, सिंधी कांलोनी, हरिजन बस्ती, लोकजुम्बिस कार्यालय, भंडारीजी का मकान आदि शामिल हैं।
39	39	नीमच नाके से नीमच रोड चलते हुए दांयी ओर की आबादी शामिल करते हुए एस्सार पेट्रोलपेंप होते हुए राजस्व सीमा तक एवं यहां से कुओं के मकानात शामिल करते हुए कालिका माता मंदिर तक एवं यहो से पुनः नीमच नाके की ओर चलते हुए दांयी आबादी शामिल करते हुए नीमच नाके तक इसमे रुघनाथपुरा की सम्पूर्ण आबादी, ओशिया विहार, दिप्ती-विहार, तृष्णित विहार एवं नीमच रोड पर दांयी ओर वाली आबादी क्षेत्र सम्मिलित है।
40	40	नीमच नाका चौराहे से नीमच रोड पर चलते हुए बांयी ओर का क्षेत्र शामिल करते हुए नीमच रोड पर पुजा विहार शामिल करते हुए राजस्व सीमा तक एवं यहां से पश्चिमी ओर राजस्व सीमा-सीमा चलते हुए कुओं पर बसे मकानातों को शामिल करते हुए अभिनंदन नगर को छोड़ते हुए अम्बेडकर सर्कल के सामने श्री मांगीलाल जति के मकान तक एवं यहां से पुनः नीमच नाका चौराहे तक इसमे प्रगति नगर, तीर्थकर महावीर नगर, चारभुजा कांलोनी, आदित्य नगर कांलोनी, हायर सेकेण्डरी स्कूल क्षेत्र एवं आशापुरी कांलोनी आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं।

आयुक्त
नगर परिषद
प्रतापगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।